



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

मई 16, 2025

संख्या 20

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025			घट - बढ़	
	मई 10	मई 02	मई 09		सप्ताह	वर्ष
	1	2	3		4	5
1 जारी नोट	3556914	3774272	3804166		29894	247252
1.1 संचलन में नोट	3556902	3774260	3804149		29889	247248
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	12	11	17		5	5
2 जमा राशियां						
2.1 केंद्र सरकार	101	100	100		0	0
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना		0	0		0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42		0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	945241	933070	925199		-7871	-20042
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8406	8423	8277		-145	-129
2.6 अन्य बैंक	54630	52767	53050		283	-1580
2.7 अन्य	567873	506132	569875		63743	2002
3 अन्य देयताएं	1799957	2269533	2337286		67752	537329
कुल देयताएं / आस्तियां	6933164	7544340	7697996		153656	764833
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4762366	4943657	4995894		52237	233528
2 सोना	467218	691478	737220		45742	270002
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1359843	1702840	1753694		50854	393851
4 ऋण और अग्रिम						
4.1 केंद्र सरकार	-	0	0		0	0
4.2 राज्य सरकारें	11584	38480	51342		12862	39758
4.3 नाबार्ड	-	0	0		0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	176586	23458	25291		1833	-151295
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0		0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-		-	-
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	-	-		-	-
4.8 अन्य	146908	124409	114419		-9991	-32490
5 खरीदे और भुनाए गए बिल						
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-		-	-
5.2 खजाना	-	-	-		-	-
6 निवेश	2064	2064	2064		0	0
7 अन्य आस्तियां	6595	17954	18073		119	11479

* डाटा अनतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	मई 09, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	5897173	690617	99381	4553	185033	22291	518259	46466
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	4964245	581373	52579	196	113411	13816	240856	15725
1.2 स्वर्ण	737220	86337	45742	4518	69058	8161	270002	30386
1.3 विशेष आहरण अधिकार	158246	18532	1404	-26	2957	363	7472	477
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	37462	4374	-345	-134	-393	-49	-72	-121

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

मई 16, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 941653 करोड़	2025													
	मई 3	मई 4	मई 5	मई 6	मई 7	मई 8	मई 9	मई 10	मई 11	मई 12	मई 13	मई 14	मई 15	मई 16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	964407	962890	951673	961366	955694	957142	932301							
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	102.4	102.3	101.1	102.1	101.5	101.6	99.0							

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	मई 02, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	350035	3516	-3416	40621	47941	58980
1.2 बैंकों से उधार	110268	5134	-14743	-1708	130466	-57418
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	23236	-689	4075	-6679	16755	-53290
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	23033418 (22976086)	172553	463155	452817	2503500 (2400862)	2095037 (2140342)
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.8	2.3	2.0	13.6 (13.0)	10.0 (10.3)
2.1.1 मांग	2918196	279633	-6263	220147	258966	480606
2.1.2 मीयादी	20115223	-107080	469418	232670	2244534	1614431
2.2 उधारियां	868035	-570	2291	-47213	299359	87802
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1035053	19968	-34496	-26579	70543	132122
3 रिज़र्व बैंक से उधार	23458	-1305	-51357	-288008	129428	-147901
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	1018803	27822	30279	54515	116224	-32392
4.1 उपलब्ध नकदी	85733	4021	46	3859	-7736	-3746
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	933070	23802	30234	50656	123960	-28646
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	230558	-7646	-6857	14756	-7169	39088
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	22531	237	2714	-3307	-11659	7461
5.3 बैंकों को अग्रिम	38604	-1663	5748	-900	14904	-15512
5.4 अन्य आस्तियां	76467	5249	-5874	9115	38066	-33083
6 निवेश	6713521 (6666937)	20078	114131	15593	701231 (615871)	492832 (531608)
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.3	1.9	0.2	12.7 (11.2)	7.9 (8.7)
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6712907	20080	113962	15609	700920	493335
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	614	-2	168	-16	310	-503
7 बैंक ऋण	18286313 (17875824)	98445	199556	42341	2731032 (2213915)	1654592 (1761221)
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.5	1.2	0.2	19.6 (15.9)	9.9 (10.9)
7 क.1 खाद्य ऋण	62446	30321	14699	25915	4595	24666
7 क.2 खाद्येतर ऋण	18223867	68124	184858	16426	2726437	1629926
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	17945698	99273	183581	35847	2675965	1627815
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	80615	1322	4089	5653	22281	16059
7 ख.3 भुनाए गए	223815	-955	12135	2756	41717	14322
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	14047	-680	-496	-1075	-3377	-1869
7 ख.5 भुनाए गए	22138	-515	248	-839	-5553	-1734

1. 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विलय के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/समाप्त सप्ताह	2024	2025				
	मई 10	अप्रैल 11	अप्रैल 18	अप्रैल 25	मई 02	मई 09
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	..	..	4.35	..	4.43	..
..	..	..	(4.33)	..	(4.42)	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	77.95	..	77.80	..
..	..	..	(79.56)	..	(79.39)	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	-16.80	..	11.70	..
..	..	..	(-20.02)	..	(9.35)	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	29.14	..	29.02	..
..	..	..	(29.28)	..	(29.15)	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	-1.60	..	3.69	..
..	..	..	(-1.60)	..	(3.44)	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
बैंक दर	6.75	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
आधार दर	9.10/10.25	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.00/8.60	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.30	8.15/8.30
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.15	6.00/7.15	6.00/7.05
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/2.75	2.70/2.75	2.70/2.75	2.70/2.75
मांग मुद्रा दर (भारत आसत)	6.59	6.00	5.85	5.86	5.89	5.84
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.00	6.03	5.94	5.90	5.90	5.88
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.08	6.10	6.02	5.95	5.93	5.88
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.09	6.09	6.02	5.95	5.91	5.88
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	7.08	6.48	6.41	6.40	6.32	6.34
संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया®						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.49	86.14	85.57	85.58	83.86	85.64
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	90.01	97.11	97.26	97.12	94.95	96.29
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिआ 1-माह	1.24	2.59	2.50	2.57	2.65	2.83
3-माह	1.31	2.31	2.26	2.34	2.40	2.48
6-माह	1.43	2.19	2.11	2.15	2.21	2.39

*प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बैंचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीकी डॉलर / भारतीय रुपया की हाज़िर दर तथा अन्य प्रमुख मद्रुओ की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26*		2024		2025	
	मार्च 21	मई 02	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27214355 (27273801)	27766361 (27823694)	194209 (193009)	0.7 (0.7)	529407	2.1	552007 (549893)	2.0 (2.0)	2537805	11.1	2405337 (2360032)	9.5 (9.3)
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3620845	3713112	19361	0.5	59799	1.8	92267	2.5	103141	3.1	243037	7.0
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	3061710	279097	10.0	-2960	-0.1	221687	7.8	265321	11.4	477782	18.5
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20643062 (20702508)	20885188 (20942521)	-106851 (-108050)	-0.5 (-0.5)	478059	2.6	242126 (240013)	1.2 (1.2)	2148513	12.6	1667212 (1621907)	8.7 (8.4)
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	110426	106352	2602	2.5	-5491	-5.8	-4074	-3.7	20830	30.5	17306	19.4
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8135829 (8183590)	8626043 (8672626)	49941 (48759)	0.6 (0.6)	66893	0.9	490214 (489037)	6.0 (6.0)	350560	4.8	1047135 (1008359)	13.8 (13.2)
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1180870	1652602	26093		-54706		471733		-265692		514096	
2.1.2 अन्य बैंक	6954959 (7002720)	6973441 (7020024)	23848 (22666)	0.3 (0.3)	121599	1.9	18481 (17304)	0.3 (0.2)	616252	10.6	533039 (494263)	8.3 (7.6)
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	18644339 (19065706)	18684734 (19095222)	101227 (99225)	0.5 (0.5)	206881	1.2	40395 (29516)	0.2 (0.2)	2222553	15.2	1805708 (1699079)	10.7 (9.8)
2.2.1 रिज़र्व बैंक	35823	20762	1482		-3134		-15061		-10926		9490	
2.2.2 अन्य बैंक	18608516 (19029883)	18663972 (19074461)	99744 (97743)	0.5 (0.5)	210015	1.3	55456 (44578)	0.3 (0.2)	2233479	15.3	1796218 (1689590)	10.6 (9.7)
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5977361	6112152	-57242	-0.9	-37477	-0.7	134791	2.3	496610	9.9	582125	10.5
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36306	36632	0	0	200	0.6	326	0.9	3151	10.3	3000	8.9
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	5579480 (5989161)	5693199 (6092939)	-100282 (-102266)	-1.7 (-1.7)	-292910	-5.9	113719 (103777)	2.0 (1.7)	535069	13.0	1032631 (932531)	22.2 (18.1)
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	2159098	2257212	-50946	-2.2	-20698	-1.2	98114	4.5	130146	7.9	487776	27.6

*: 21 मार्च 2025 से संबंधित।

नोट: कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल हैं।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26*		2024		2025	
	मार्च 28	मई 09	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4836336	4933363	21859	0.4	55358	1.2	97027	2.0	221997	5.0	246560	5.3
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3720468	3840781	29889	0.8	79073	2.3	120313	3.2	101924	2.9	250247	7.0
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	1003762	986527	-7734	-0.8	-17171	-1.7	-17235	-1.7	99998	11.0	-21751	-2.2
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	112106	106055	-296	-0.3	-6544	-6.9	-6050	-5.4	20076	29.6	18063	20.5
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1388403	1657068	4466		-96183		268665		-273066		560039	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1362162	1605769	-8396		-101167		243606		-272199		520281	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	11418	-168678	-12865		171493		-180096		162467		-294025	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-27049	-188007	-11432		174719		-160958		157466		-302173	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5526072	5733311	98016	1.7	-11473	-0.2	207239	3.8	470275	9.9	503701	9.6
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	36632			200	0.6	0	0.0	3151	10.3	3000	8.9
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	2126189	2324969	67758	3.0	8680	0.5	198780	9.3	140830	8.5	526155	29.3

*: 28 मार्च 2025 से संबंधित।

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	एसडीएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुस्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर				विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मई 05, 2025	-	-	5646	-	395	162616	-	-	-	-156575
मई 06, 2025	-	-	6428	-	161	178561	-770	-	-	-172742
मई 07, 2025	-	-	5192	-	493	182611	-	-	50000	-126926
मई 08, 2025	-	-	8074	-	1980	177191	-	-	-	-167137
मई 09, 2025	-	-	7417	-	552	213300	-	-	-	-205331
मई 10, 2025	-	-	-	-	2404	207660	-	-	-	-205256
मई 11, 2025	-	-	-	-	2543	207489	-	-	-	-204946

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024		2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	मार्च	अप्रैल	मार्च	अप्रैल	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	185.8	186.7	192.0	192.6	0.3	0.3	3.2
1.1 ग्रामीण	187.8	188.5	193.9	194.0	0.1	0.1	2.9
1.2 शहरी	183.6	184.7	189.9	190.9	0.5	0.5	3.4
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	138.9	139.4	143.0	..	..	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	151.4	152.9	154.5	154.2	-0.2	-0.2	0.9
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	183.2	187.1	184.6	184.4	-0.1	-0.1	-1.4
3.2 ईंधन और बिजली	152.1	151.4	152.4	148.1	-2.8	-2.8	-2.2
3.3 विनिर्मित उत्पाद	140.1	141.2	144.4	144.9	0.3	0.3	2.6

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
अप्रैल 18, 2025	518760	7213	6.43 - 7.37
मई 02, 2025	513000	9186	6.35 - 7.22

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
अप्रैल 30, 2025	545587	72419	6.26 - 13.00
मई 15, 2025	541591	48974	6.44 - 10.14

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	मई 10, 2024	मई 02, 2025	मई 09, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	18513	26810	28824
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	2843	9757	1669
3 त्रिपक्षीय रेपो	514261	816698	658386
4 बाजार रेपो	543732	769154	687084
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	3972	6641	6372

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

मई 09, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	21094	23527	62779	213079
182-दिवसीय	50838	65448	9688	215688
364-दिवसीय	70984	77102	45600	349600
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार – दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (मई 09, 2025 तक)	2024-25 (मई 10, 2024 तक)	2024-25	2025-26 (मई 09, 2025 तक)	2024-25 (मई 10, 2024 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	161000	152000	1400697	161000	141487	1039275
2. राज्य सरकारें	76692	61100	1073310	55352	42799	753345

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका (<https://rbi.org.in/web/rbi/-/publications/a-handbook-on-rbi-s-weekly-statistical-supplement-15762>) में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <https://data.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

शरी जी. ललित, तनोशिक ारा भारतीय रज़र्व बैंक, शहीर भगतसिंह मार्ग, फोर्द्, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादकीय प रकातश हि हा